

संपादकीय

रूस से अलग खड़ा क्यों दिखना चाहता है चीन

शी चिन फिंग अक्सर व्लादिमीर पुतिन को अपना बेस्ट फ्रेंड बताते रहते हैं। लेकिन बीते शनिवार जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस दोस्ती की परीक्षा की घड़ी आई तो उन्होंने ठीक वही किया जो नरेंद्र मोदी ने किया। शी और मोदी दोनों तटस्थ रहे, न अमेरिका को सपोर्ट किया और न ही रूस को। मामला उस निंदा प्रस्ताव का था, जो अमेरिका यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ लाया था। बहनों को उम्मीद थी कि बड़ी शक्तियों में रूस का सबसे करीबी दोस्त होने के नाते चीन प्रस्ताव को वीटो करने में उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रस्ताव तभी गिरा, जब रूस ने उसे वीटो किया। दिलचस्प यह कि चीन और भारत दोनों ने तटस्थ रहने का कारण भी बिल्कुल एक सा बताया। दोनों का कहना था कि वे कूटनीतिक बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करना चाहते, जो कि उनके मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निंदा प्रस्ताव पारित करके रूस को कोने में धकेलने की कोशिशों से बंद हो सकते थे।

दुश्मन नंबर वन- बात सही थी। अजरक की बात है कि लोकतंत्र के हिमायती पश्चिमी देश यह नहीं समझ पाए। लेकिन एक अहम अंतरराष्ट्रीय मसले पर भारत और चीन का सहमत होना भी अपने आप में दुर्लभ घटना है। हालांकि यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों का चिंता जैसे एकाध मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो दोनों देशों के लिए इसके कारण बिल्कुल अलग-अलग हैं। रूस और चीन दोनों तानाशाही शक्तियां हैं और दोनों में अमेरिका के खिलाफ साझा अविश्वास है। दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र की अनुआई वाले संस्थानों में तालमेल बनाए रखते हुए काम करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं से जुड़ने में एक-दूसरे की मदद भी करते हैं। समझा जाता है कि पुतिन ने यूक्रेन संबंधी अपनी योजनाओं पर शी चिन फिंग से चार फरवरी को चीन यात्रा के दौरान ही विचार-विमर्श कर लिया था। यह बात के बयानों से भी स्पष्ट हुआ, जिन्हें रूस ने कहा कि वह ताइवान मसले पर चीन का समर्थन करेगा।

पेक्षकों का मानना है कि ताइवान दूसरा यूक्रेन बनने वाला है क्योंकि चीन कहता रहा है कि वह ताकत के बल पर उसे अपने कब्जे में लेने को तैयार है। चीन मानता है कि ताइवान उसका अपना ही एक प्रांत है, जबकि ताइवान का अपना अलग झंडा ही नहीं अपनी सेना और अपनी करंसी भी है। वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ताइवान मसले पर चीन को रूस का समर्थन यूक्रेन मामले में पेइचिंग में बनी आपसी सहमति का ही एक हिस्सा है।

दोनों देशों के बीच सालाना 147 अरब डॉलर का व्यापार होता है। चीन को सीमा पार से रूस की गैस की जरूरत है। शी और पुतिन ने हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके मुताबिक अगले 30 वर्षों तक चीन को एक अन्य पाइपलाइन से अतिरिक्त गैसों की आपूर्ति होगी है। यह मास्को के लिए बहुत बड़ी मदद है, जो पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से अपना माल बेचने में असमर्थ है।

तो क्या चीन आखिरी परां में अचानक ढीला पड़ गया है या रूस ही यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई करते हुए उसकी अपेक्षाओं से भी आगे बढ़ गया? इतना आगे कि उसके लिए स्थिति असुविधाजनक हो गई है?

चीनियों के बारे में माना जाता है कि वे निकट भविष्य की अच्छी समझ रखते हैं और दीर्घकालिक योजनाएं बनाने में भी निपुण होते हैं। लेकिन इस बार वे गच्चा खा गए। उन्हें न तो पुतिन के इस तरह यूक्रेन में चढ़ आने का अंदाजा था और न ही पश्चिमी देशों के रूस के खिलाफ गोलबंद होने का। चीन इस समय तमाम तरह के प्रतिबंध झेलते, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़े रूस के साथ खड़ा नहीं दिखना चाहता।

-सैबल दासगुप्ता

25 खिलाड़ियों को आईपीएल 2022 से पहले एनसीए पहुंचने का दिया आदेश

नई दिल्ली। बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया है। 26 मार्च से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के पहले मैच में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। शेड्यूल जारी होने के बाद सभी फ्रेंचाइजियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। हालांकि लीग के 15वें सीजन के शुरू होने से पहले ही बीसीसीआई का एक और आदेश सामने आया है, जो कि खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर है। बोर्ड के इस फैसले के बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या समेत कई खिलाड़ियों की फिटनेस बढ़ सकती है। इनमें वे सीनियर खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो कि इस समय श्रीलंका के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं। बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 से पहले 25 खिलाड़ियों को नेशनल क्रिकेट एकेडमी (एनसीए)



पहुंचने और 10 दिन तक ट्रेनिंग कैंप में भाग लेने को कहा है। एनसीए में खिलाड़ियों की फिटनेस टेस्ट का आंकलन किया जाएगा। इनमें आईपीएल की फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या भी शामिल हैं। हार्दिक पिछले साल अक्टूबर में टी 20 विश्व कप के बाद से ही टीम से बाहर चल रहे हैं। ऐसा

माना जा रहा है हार्दिक ने कैंप में शामिल होने के लिए थोड़ा और समय मांगा है और अब वह आगे कुछ दिनों में एनसीए पहुंच जागे। रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड ने 4 मार्च तक खिलाड़ियों को एनसीए पहुंचने को कहा था और 5 मार्च से फिटनेस कैंप शुरू हो चुका है। समझा जाता है कि केएल राहुल, दीपक चाहर,

ऋतुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, वॉशिंगटन सुंदर और इशान किशन जैसे खिलाड़ी पहले से ही वहां मौजूद हैं जबकि युजवेंद्र चहल, शिखर धवन, संजू सैमसन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक हुड्डा, शार्दूल ठाकुर, हर्षल पटेल, रवि बिश्रॉई, आवेश खान जैसे खिलाड़ियों को भी फिटनेस टेस्ट देना होगा।

छप्परफाड़ कमाई के लिए इन 15 दमदार शेयरों में लगा सकते हैं दांव, मिलेगा 70 प्रतिशत तक का जोरदार रिटर्न, एक्सपर्ट बुलिश

नई दिल्ली। अगर आप शेयर बाजार से कमाई के मौके तलाश रहे हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, इन दिनों रूस-यूक्रेन संकट के चलते बाजार में भारी उठा पटक का माहौल है, लेकिन बाजार जानकारों की मानें तो ज्यादा दिन बाजार में गिरावट नहीं रहने वाले हैं और बाजार रिकवर करेगा। इस बीच ब्रोकरेज एक्सिस सिक्वोरिटीज ने एक नोट में कहा कि रूस-यूक्रेन जग धमके के बाद, बाजार में तेजी आएगी और शेयरों में खरीदारी बढ़ेगी। ब्रोकरेज हाउस ने मार्च महीने के लिए अपने

टॉप स्टॉक पिकस की एक नोट शेयर की है। इसके मुताबिक, टॉप पिकस पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव किए गए हैं। एक्सिस सिक्वोरिटीज के टॉप स्टॉक में आईसीआईसीआई बैंक शामिल है। आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, मासुति सुजुकी, भारतीय स्टेट बैंक, हिडालको इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, फेडरल एक्सिस सिक्वोरिटीज ने एक नोट में कहा कि रूस-यूक्रेन जग धमके के बाद, बाजार में तेजी आएगी और शेयरों में खरीदारी बढ़ेगी। ब्रोकरेज हाउस ने मार्च महीने के लिए अपने

नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन में जारी भीषण युद्ध से आज शेयर बाजार धड़ाम हो गया। सेंसेक्स 53000 के नीचे और सोना 53000 के पार हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 81 पैसे टूटकर 76.98 पर आ गया। जबसे युद्ध शुरू हुआ है तब से निवेशकों की पूंजी लगातार कम हो रही है। ऐसे में टाटा ग्रुप की कंपनी टीटीएमएल के शेयर भी निवेशकों को कंगाल करने में कोई कसर नहीं

टाटा ग्रुप की टीटीएमएल कंपनी का शेयर आया 100 रुपये से नीचे फिर भी नहीं मिल रहे खरीदार



छोड़ रहे हैं। कई सत्रों से लग रहे लोअर सर्किट के कारण यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 290.15 रुपये से 97.60 रुपये पर आ गया है। आज यानी सोमवार को भी यह 5 फीसद की लोट्ट सर्किट पर

है। एनएसई पर 13.20,282 शेयर बिकने को तैयार हैं, लेकिन खरीदार कोई नहीं। इस स्टॉक में केवल सेलर ही दिख रहे हैं। जब से कंपनी को दिसंबर 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही में 302 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा होने की खबर आने के बाद से ही इसमें हर रोज लोअर सर्किट लग रहा था। एक साल पहले की तिमाही में 298 करोड़ का

नुकसान हुआ था। बता दें 10 जनवरी को टीटीएमएल का शेयर अपने ऑल टाइम हाई 290.15 रुपये पर बंद हुआ था। इतनी गिरावट के बावजूद इस टेलीकॉम शेयर ने पिछले 6 महीने में 187 फीसद का रिटर्न दिया है। बाजार की गिरावट के बजाय कंपनी के तीमाही परिणाम के बाद इसमें नुकसान जारी है। पिछले 1 महीने में यह अपने निवेशकों को 43.32 फीसद का नुकसान करा चुका है।

राकेश झुनझुनवाला ने अपने 2 फेवरेट स्टॉक से 5 मिनट में गंवा दिए 400 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। शेयर बाजार में एक मिथक है कि मार्केट दिग्गजों का पैसा नहीं डुबता। हालांकि, वे भी सेंसेक्स, निफ्टी और अन्य सूचकांकों की पिटाई से प्रभावित होते हैं। इतना ही नहीं रिटेल निवेशकों की तुलना में बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसका ताना उदाहरण राकेश झुनझुनवाला है। दरअसल, राकेश झुनझुनवाला को टाइटन और स्टाार हेल्थ के शेयरों में गिरावट के बाद महज 5 मिनट में 400 करोड़ का नुकसान हो गया। दोनों शेयर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल हैं और उनके पसंदीदा स्टॉक हैं। बिग बूल और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला का इन दोनों कंपनियों में बड़ा निवेश है और इन शेयरों में किसी भी बड़े

बदलाव से राकेश झुनझुनवाला की कुल संपत्ति में भारी बदलाव आता है। आज, टाइटन के शेयर और स्टाार हेल्थ के शेयर दोनों ही गिरावट के साथ खुले, जिसके कारण बाजार के बिग बूल की संपत्ति में भारी गिरावट देखी गई। टाइटन के शेयर की कीमत आज लगभग 26 प्रतिशत गिरावट के साथ खुली और 2383.35 प्रतिशत के स्तर पर और नीचे चली गई। सुबह 9.20 बजे तक 57.65 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह, स्टाार हेल्थ के शेयर की कीमत लगभग 5 की गिरावट के साथ खुली और सुबह 9.20 बजे तक 638 प्रत्येक स्तर पर चली गई, शुरूआती घंटी सत्र के केवल 5 मिनट में 14.05 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई।

कुलदीप यादव भारत की टेस्ट टीम से किए गए रिलीज

नई दिल्ली। भारतीय टीम के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को श्रीलंका के खिलाफ जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज रुपये से 97.60 रुपये पर आ गया है। आज यानी सोमवार को भी यह 5 फीसद की लोट्ट सर्किट पर



करने का ये भी कारण है, क्योंकि उनके अलावा अब टीम में दो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। अक्षर पटेल के अलावा रविंद्र जडेजा भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। इसके अलावा ऑफ स्पिनर के रूप में टीम के पास 18 सदस्यीय दल में आर अश्विन और जयंत यादव का नाम शामिल है।

22 फरवरी को जब श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम का चयन किया गया था तो प्रेस रिलीज के माध्यम से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने ये बताया था कि अक्षर पटेल इस समय रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और वे पहले टेस्ट मैच में सलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उसी दौरान उनका दूसरे टेस्ट मैच के सलेक्शन से पहले फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और वे पास होते हैं तो सलेक्शन के लिए उपलब्ध होंगे।

आज का राशिफल

मेघ: उतावलेपन में लिए गए निर्णयों से से आपको बाद में पछताना पड़ेगा। जबकि आप अधिक व्यावहारिक बनने का प्रयास करेंगे। किसी भी विषय में निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह विचार करना शुरू कर दें।
वृष: जिस तरह मिर्च खाने को लज्जित बनाती है, उसी तरह थोड़ा-सा दुःख भी जीवन में जरूरी है। तभी सुख की असली कीमत पता लगती है। आज आप महसूस करेंगे कि शादी का बंधन वाकई स्वर्ग में बनाया जाता है।
मिथुन: आज का दिन अत्यंत लाभदायक होगा। पूर्वजों की संपत्ति में से आपको हिस्सा मिलेगा। उत्तराधिकार का लाभ मिलेगा। इसका विनम्रतापूर्वक लाभ उठाएं। व्यापार में अचानक धन लाभ होगा।
कर्क: पूरा दिन प्रवृत्तियों से भरा रहेगा। घर में अत्यधिक काम के कारण थकान महसूस होगी। अपने मन और हृदय पर एक प्रकार का बोझ महसूस करेंगे। अत्यधिक भावुक न बनें।
सिंह: आज कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के मूड में नहीं होंगे, बल्कि आराम करना अधिक पसंद करेंगे। फिर भी आपका कोई काम आए, तो आलस को दूर कर काम में लग जायें।
कन्या: आप अपने जीवनसाथी या मित्रों से भावनात्मक सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। किसी विशेष व्यक्ति के समक्ष अपने निजी स्नेह और भावनाएं व्यक्त करने के लिए आज अच्छा दिन है। बाहर घूमने जाने के लिए तथा पर्यटन के लिए भी आज अनुकूल दिन है।
तुला: आप अपनी भावी प्रगति के लिए भूतकाल के अनुभव से बहुत अधिक सीखेंगे। आप अपनी किसी मूल्यांकन वस्तु के प्रति अधिक सकारात्मक बनेंगे। दिन के दौरान निश्चित छोटी-छोटी वस्तुएं आपकी चिंता का कारण बनेंगी। सुख-शांति से दिन व्यतीत होगा।
वृश्चिक: सकारात्मक विचारों को ही दिमाग में आने दें। आज अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचें। अपने परिवार के साथ रुखा व्यवहार न करें। यह पारिवारिक शांति को भंग कर सकता है।
धनु: आज आप हरेक कार्य समय से पूरा कर सकेंगे, इसलिए अपूर्ण रहे सभी कार्यों को पूरा कर सकेंगे। विदेश के साथ संपर्क स्थापित करने का दिन है। आप किसी धार्मिक समारोह में उपस्थित होंगे। लंबी दूरी की यात्रा का आयोजन करने के लिए आज अनुकूल दिन है।
मकर: मित्रों के विषय में आपके मन में ब्याप्त गलतफहमी और गलत धारणाओं का निराकरण हो जाने से आपके संबंध पूर्ववत् बनेंगे। अपनी सच्चाई आप उनके समक्ष साबित कर सकेंगे। वे भी आप पर भरोसा करेंगे। ये घटनाएं आपको आनंदित करेंगीं।
कुंभ: आज आप मित्रों और सहकर्मियों की प्रगति से बहुत अधिक खुशी अनुभव करेंगे। आपकी साहसिक भावना बढ़ेगी और आप अच्छे भविष्य के लिए ठोस कदम उठाने का निश्चय करेंगे। आप जीवन में तेजी से प्रगति करना चाहते हैं।
मीन: आज सभी बातों को सहजता से लें। ऑफिस में या घर में किसी के साथ सार्थक समझौता और चर्चा आपके लिए सहायक होगी। आप स्वभावतः अत्यधिक भावनाशील हैं और आज यह स्वभाव विशेषरूप से परिलक्षित होगा।

शिल्पा ने शुरू की अपनी अपकमिंग मूवी की शूटिंग

समीक्षकों द्वारा सराही गई मूवी शेरांनी, छोरी और जलसा के बाद भूषण कुमार और अबुद्वतिया एंटरटेनमेंट एंड प्रस्तुत करने वाले है शिल्पा शेरी कुंद्रा की मूवी सुखी - आज से शूटिंग शुरू हो चुकी है। शेरांनी, छोरी और जलसा जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए की गई सक्सेसफुल कोलेबोरेशन के उपरांत टी-सीरीज और अबुद्वतिया एंटरटेनमेंट एक बार फिर मूवी सुखी के लिए एक साथ आ रहे हैं। इस मूवी के साथ सोनल जोशी अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रही हैं।



सुखी यह बहुत ही मनोरंजक, लाइट हार्टेड और स्लाइस ऑफ लाइफ मूवी है। इस मूवी में अभिनेत्री शिल्पा शेरी कुंद्रा लीड रोल में दिखाई देने वाली हैं। इस मूवी के कास्ट एण्ड क्रू ने आज से पंजाब मूवी की शूटिंग शुरू कर चुकी है और एंटरटेनमेंट के फंस निश्चित रूप से इस खुशामिजाज मूवी का लुप्त उठायेगे। गुलशन कुमार और टी-सीरीज प्रस्तुत करते हैं अबुद्वतिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की मूवी सुखी इस मूवी का निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विक्रम मल्होत्रा और शिखा शर्मा द्वारा किया जा रहे है।

इसके अलावा शिल्पा की और भी मूवीज के बारे में बात की जाए तो वह लास्ट टाइम हंगामा-2 में नजर आईं, हालांकि मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं। फ़िलहाल शिल्पा शेरी इस समय आईजीटी पर बतौर जेज नजर आ रही है।

पोन्नियिन सेलवन-1 का इंतजार खत्म, इस तारीख को होगा प्रदर्शन



हिन्दी और भारतीय सिनेमा के दिग्गज निर्माता निर्देशकों में शामिल मणिरत्नम पिछले कुछ समय से अपनी अगली फिल्म पोन्नियिन सेलवन के निर्माण को लेकर चर्चाओं में रह रहे हैं। उनकी यह फिल्म 10वीं सदी पर आधारित पीरियड ड्रामा है जिसे बहुत बड़े बजट में बनाया गया है। इस फिल्म के जरिये हिन्दी फिल्मों की जानी मानी अदाकार ऐश्वर्या राय

बच्चन सिनेमाई परदे पर वापसी करने जा रही हैं। मणिरत्नम की पीरियड ड्रामा पोन्नियिन सेलवन के निर्माताओं ने फिल्म के फरस्ट लुक पोस्टर का अनावरण किया है। 10वीं सदी पर आधारित इस फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, विक्रम, राधारी, जयम रवि, त्रिशा, सरथकुमार, कथान और ऐश्वर्या लक्ष्मी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

'ओट्स-सेसमै स्पिनेच टोस्ट'

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर क्यों न कुछ हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज से दिन की शुरूआत की जाए तो आइए बनाते हैं ऐसा ही एक ब्रेकफास्ट।



सामग्री :
रोस्टेड Quaker Oats- 1/2 कप (50 ग्राम), ब्राउन ब्रेड स्लाइसेज- 4, कटी हुई पालक की पत्तियां- 1 कप (100 ग्राम), प्याज कटा हुआ- 1 नमक और काली मिर्च- स्वादानुसार, लो फेट मिल्क- 1/2 कप (100 ग्राम), टमाटर प्यूरी- 4 टेबलस्पून, सफेद तिल- 2 टीस्पून, टमाटर कटे हुए गॉर्निशिंग के लिए- 3 से 4

विधि :
- पैन गर्म करें और इसमें ओट्स और कटी हुई प्याज को एक मिनट के लिए भून लें।
- अब इसमें पालक, नमक, काली मिर्च डालकर दो मिनट और भूनें।
- इसके बाद दूध डालकर दो मिनट और पकाना है।

- पैन को आंच से उतारकर किनारे रख दें।
- अवन को 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट होने के लिए रख दें।
- अब ब्रेड स्लाइस पर सबसे पहले टमाटर प्यूरी लगाएं।
- इसके बाद इस पर पालक वाला मिक्सचर लगाएं, ऊपर से सफेद तिल छिड़क दें।
- सबसे ऊपर टमाटर के स्लाइसेज लगाएं और अब इन ब्रेड स्लाइसेज को 7 से 8 मिनट के लिए बेक करें।
- तिकोने शोप में काटकर सर्व करें।

शब्द सामर्थ्य- 6

बाएँ से दायें
1. भारत के वर्तमान विधायक 6. हित, उपकार 7. असमान, पूर्वोत्तर का एक राज्य 8. किसी वस्तु के आदि के पहचान सूचक संयोजन का शब्द, संज्ञा 10. श्वेतथल पर बनया गया मकान, योग का अंतिम अंग, तपस्या 13. इंकार करना, ना कहना 14. पिता, कर्लक, सम्माननीय व्यक्ति 15. आय पर लगने वाला टैक्स, इंकमेटैक्स 16. प्रतिद्वंद्वी, प्रेमिका का दूसरा प्रेमी 17.

परंपरा, रीति, रियाज 20. रुप से युक्त, चिह्न, लक्षण, नाटक, एक साहित्यिक अलंकार 23. लोग, पंजा 25. नामी, नामवर, प्रसिद्ध 27. संसार का स्वामी, बादशाह, सम्राट, ईश्वर 28. फलाना, खिंचाव पैदा करना।
ऊपर से नीचे
1. मारना, प्रहार करना, आघात करना 2. मिथ्याअभिमान, आडंबर 3. विपत्ति, आफत 4. मालदार, धनवान, अमीर 5. ज्ञान प्राप्त करना, अनुमान लगाना, कल्पना करना 7. हक 9. विश्वास, लाभार 11. मानदंड, नापने का पैमाना 12. अपमानित और तिरस्कृत 17. संतान उत्पन्न करने को क्रिया, जन्म देने को क्रिया 18. लंबे कपड़े का गुट्टा, पशुओं को रखने को जगह 19. जलथान, वायुथान, जलपोत 21. आश्रय, सहारा 22. यादू, जरा, तनिक 24. युर्म, गुनाह 26. बाघ को तरह का धारदार हिंसक एवं विशाल पशु।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 005 का हल

भू	कं	प	फा	य	दा	स
प	ल	ला	ट	य	ती	म
ति	ल	क	क	न	क	झ
क्ष			रे			
ग	ण	क	सं	श	य	सौ
ह	या	च	क	म	न	त
रा	क्ष	स	र	क्ष	क	न
त्रि			मि			
शा	य	री	का	त	र	गो

सू-दोक्- 6

	3				7
9		6		3	8
7		9		5	6
3	8		7		5
1		3	9		7
	2		8		7
			2		4
8					3

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

विचार
1. कुल 81 वर्ण हैं, जिसमें 26 अक्षरों का एक खंड बनाता है।
2. हर खाली वर्ण में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक रखा जा सकता है।
3. बाएँ से दायें और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम, कालार और छोड़ में 1 से 9 तक के किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

